



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 56]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2010/पौष 22, 1931

No. 56]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2010/PAUSA 22, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2010

का.आ. 65(अ).—यतः, मै. लार्सन एंड दुब्रो लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के गाँव मालुमीचमपट्टी, कोयम्बदुर दक्षिण तालुक, जिला कोयम्बदुर में सूचना प्राद्योगिकी/सूचना प्राद्योगिकी संबंधित सेवाओं में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और, यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने तमिलनाडु राज्य के गाँव मालुमीचमपट्टी, कोयम्बदुर दक्षिण तालुक, जिला कोयम्बदुर में सूचना प्राद्योगिकी/सूचना प्राद्योगिकी संबंधित सेवाओं में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 13 की उप-धारा (1), धारा 53 की उप-धारा (2) तथा धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में :—

(i) केन्द्र सरकार, एतद्वारा तमिलनाडु राज्य के गाँव मालुमीचमपट्टी, कोयम्बदुर दक्षिण तालुक, जिला कोयम्बदुर में निम्नलिखित क्षेत्र को एक विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित

करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :—

तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मालुमीचमपट्टी	595/1ए।	0.2000
2.		596/2ए	0.7500
3.		597/1ए।बी	0.2450
4.		597/1बी।ए	1.5250
5.		597/1बी।सी	0.0850
6.		647/1ए।बी	0.0600
7.		647/1ए।सी	0.0600
8.		647/1ए।डी	0.0750
9.		647/1ए।एफ	0.1200
10.		647/1ए।जी	0.0850
11.		647/1ए।एच	0.0750
12.		647/1ए।आई	0.0400
13.		647/1ए।के	0.0800
14.		647/1ए।ई	0.0600
15.		647/1ए।जे	0.0600

(1)	(2)	(3)	(4)
16.		605/1जी-पीटी	0.2433
17.		646/2-पीटी	2.2051
18.		650/2-पीटी	0.0573
19.		650/3-पीटी	0.8092
20.		650/4-पीटी	1.0704
21.		651/4बी-पीटी	0.1753
22.		596/1बी-पीटी	1.4847
23.		647/1ए1ए-पीटी	1.3331
24.		649/2ए1-पीटी	0.1404
कुल			11.0388

(ii) केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति भी गठित करती है, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :-

1. विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन
2. निदेशक अथवा उप सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामित जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
3. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक —सदस्य, पदेन
4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला सीमा-शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त या उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकारी रखने वाला आयकर आयुक्त अथवा उसका नामित जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
6. निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार —सदस्य, पदेन
7. तमिलनाडु सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा। —सदस्य, पदेन
8. मै. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड (विकासकर्ता) का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रित

(iii) केन्द्र सरकार, एतद्वारा दिनांक 12 जनवरी, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख से उपर्युक्त

विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो/पत्तन माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/149/2008-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2010

S.O. 65(E).—Whereas M/s. Larsen & Toubro Limited, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone Information Technology/Information Technology Enabled Services sector at Village Malumichampatti, Coimbatore South Taluk, District-Coimbatore in the State of Tamil Nadu;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development operation and maintenance of the sector specific Special Economic Zone for Information Technology/Information Technology Enabled Services sector at Coimbatore, Tamil Nadu on 18th November, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4, sub-section (1) of Section 13, sub-section (2) of Section 53 and sub-section 1 of Section 11 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of Rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006 :—

(i) The Central Government hereby notifies the following area at Village Malumichampatti, Coimbatore South Taluk, District-Coimbatore in the State of Tamil Nadu, comprising of the Survey numbers and the area given below in the table, as a Special Economic Zone, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey Number	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Malumichampatti	595/1A1	0.2000
2.		596/2A	0.7500
3.		597/1A1B	0.2450
4.		597/1B1A	1.5250
5.		597/1B1C	0.0850
6.		647/1A1B	0.0600
7.		647/1A1C	0.0600
8.		647/1A1D	0.0750

(1)	(2)	(3)	(4)	
9.	647/1A1F	0.1200		of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India
10.	647/1A1G	0.0850		
11.	647/1A1H	0.0750	3.	Joint Director General of Foreign Trade, having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone —Member, ex-officio
12.	647/1A1I	0.0400		
13.	647/1A1K	0.0800	4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
14.	647/1A1E	0.0600		
15.	647/1A1J	0.0600		
16.	605/1G-pt	0.2433		
17.	646/2-pt	2.2051	5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner —Member, ex-officio
18.	650/2-pt	0.0573		
19.	650/3-pt	0.8092		
20.	650/4-pt	1.0704		
21.	651/4B-pt	0.1753	6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India —Member, ex-officio
22.	596/1B-pt	1.4847		
23.	647/1A1A-pt	1.3331	7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the Government of Tamil Nadu —Members, ex-officio
24.	649/2A1-pt	0.1404		
		Total	11.0388	
(ii) The Central Government hereby also constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :—				
1.	Development Commissioner of the Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio		
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry	—Member, ex-officio		
8.	Representative of M/s. Larsen & Toubro Limited (Developer)	—Special Invitee		

(iii) The Central Government hereby also appoints the 12th day of January, 2010 as the date from which the above sector specific Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot/Port under section 7 of the Customs Act, 1962.

[F. No. 1/149/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

